

## सहारनपुर में Kent-Aquaguard आरओ कंपनी के 40 लाख के नकली स्पेयर पार्ट्स बरामद, दिल्ली से लाते थे सामान



**सहारनपुर, जेएनएन। Fake spare parts** सहारनपुर में मंडी कोतवाली पुलिस को वाटर प्यूरीफायर कंपनी केंट एवं एक्वागार्ड आरओ के नकली स्पेयर पार्ट्स बरामद करने में सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया है। एक्वागार्ड कंपनी के इंवेस्टिगेशन आफिसर की सूचना पर मंडी कोतवाली पुलिस ने सोमवार की देर रात इंदिरा चौक पर छापेमारी की।

### 40 लाख का माल बरामद

यहां से पुलिस ने करीब 40 लाख रुपये का नकल सामान बरामद किया है। आरोपित कई सालों से दिल्ली से सामान लाकर कंपनी के लेबल लगाकर मार्केट में बेच रहा था। आरोपित के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि एक्वागार्ड कंपनी के इंवेस्टिगेशन आफिसर सैय्यद मोईनुद्दीन ने सोमवार की देर रात सूचना दी कि उनकी और केंट आरओ कंपनी के नकली स्पेयर पार्ट्स बेचे जा रहे हैं। जिसके बाद एसएसपी विपिन ताड़ा के आदेश पर एसपी प्रीती यादव, मंडी कोतवाली प्रभारी योगेश शर्मा टीम के साथ इंदिरा चौक की गली नंबर सात में पहुंचे।

### दिल्ली से लाया जाता था नकली सामान

यहां पर एक गोदाम में छापेमारी की गई तो यहां पर एक्वागार्ड ही नहीं, केंट आरओ कंपनी के नकली सामान बरामद हुए। इस गोदाम के मालिक शाहनवाज पुत्र सईद अहमद निवासी इंदिरा चौक को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह इस सामान को दिल्ली से लाता था। इसके बाद केंट और एक्वागार्ड कंपनी का लेबल लगाकर बेच देता था। अधिकतर सामान मार्केट में थोक के भाव में बेचता था।

### दिल्ली में भी करेगी पुलिस छापेमारी

शाहनवाज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली से सामान लाता था। अधिकतर सामान पर दिल्ली से ही लेबल लगाकर बेचा जा रहा है। एक्वागार्ड कंपनी के इंवेस्टिगेशन आफिसर सैय्यद मोईनुद्दीन का कहना है कि दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली में भी छापेमारी कराई जाएगी। इसके अलावा मार्केट में जो भी शाहनवाज ने अपने डीलर बनाए हुए थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी।